

**वित्त मंत्रालय**  
**लोक उद्यम विभाग**  
**अक्टूबर, 2022 माह हेतु डीपीई के संबंध में मासिक उपलब्धियां**

**1. कैपेक्स लक्ष्य:**

अक्टूबर, 2022 माह तक के चुनिंदा सीपीएसईज़ (100 करोड़ रूपए और उससे अधिक के वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य के साथ) और अन्य सरकारी संगठनों के संबंध में 6.62 लाख करोड़ रुपये (बजट प्राक्कलन) के वार्षिक कैपेक्स लक्ष्यों और उसकी उपलब्धि से संबंधित जानकारी दिनांक 07 नवंबर, 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। 6.62 लाख करोड़ रुपये (लगभग) के अनुमानित व्यय की तुलना में, दिनांक 31.10.2022 तक उपलब्धि 3.51 लाख करोड़ रुपये (लगभग) अर्थात तक लगभग 53.07% है।

**2. सीपीएसईज़ का संचालन:**

i) डीपीई ने आईपीआरसीएल लिमिटेड में बोर्ड स्तर से नीचे के 20 पदों को 3 साल की अवधि के लिए तत्काल समावेश के नियम से छूट देने पर सहमति व्यक्त की।

ii) डीपीई ने बोर्ड स्तर से नीचे के 65 पदों के सृजन के लिए एनएफडीसी लिमिटेड के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

iii) डीपीई ने एनटीपीसी लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक (ईंधन परिवहन) के पद को 3 साल की अवधि के लिए तत्काल समावेश के नियम से छूट देने पर सहमति व्यक्त की।

iv) जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुरोध किया गया है, डीपीई ने सभी सीपीएसईज़ से दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए सीएसआर फंड से योगदान पर विचार करने का अनुरोध किया।

v) जैसा कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है, सभी सीपीएसईज़ को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 'विद्यांजलि' पोर्टल से अवगत कराया गया था।

**3. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और सीसीईए/मंत्रिमंडल नोट्स:**

i) वित्त मंत्रालय की समेकित टिप्पणियों पर दूरसंचार विभाग के एक मसौदे जीओएम (मंत्रियों का समूह) नोट की जांच की गई और माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए व्यय विभाग को उस पर टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।

ii) इस माह के दौरान सीजीडी/आईएमजी/सीएमसीडीसी की पांच बैठकें आयोजित की गईं।

iii) लोक उद्यम विभाग ने अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित निम्नलिखित नोटों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

- क. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने हेतु व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के लिए ज्ञापन परिचालित किया गया।
- ख. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा औद्योगिक नीति 2022- मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड पर मसौदा कैबिनेट नोट परिचालित किया गया।
- ग. दूरसंचार विभाग द्वारा भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का मसौदा परिचालित किया गया।

iv) लोक उद्यम विभाग ने ब्रुसेल्स में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ एफटीए वार्ता के दूसरे चरण में भाग लिया।

#### 4. वेतन संशोधन और वेतन अधिसूचना:

(i) आईडीए पैटर्न वेतनमान 2017, 2007, 1997 और 1987 और 1992 का पालन करते हुए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) में गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के लिए दिनांक 01.10.2022 से देय महंगाई भत्ता दरों को दिनांक 06.10.2022 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन द्वारा अधिसूचित किया गया था।

(ii) डीपीई ने सीपीएसईज़ कर्मचारियों के लिए 5 वें, 6 वें और 7<sup>वें</sup> सीपीसी के मामलों में सीडीए पैटर्न वेतनमान के संबंध में डीए आदेश भी जारी किए।

#### 5. प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं:

लोक उद्यम विभाग ने अक्टूबर, 2022 के दौरान परियोजना योजना और निगरानी, नई श्रम संहिता, व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए दक्षताओं का निर्माण, तनाव और स्वास्थ्य मुद्दों के प्रबंधन और अनुबंध प्रबंधन पर तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम और दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इनमें सीपीएसईज़/एसएलपीई के 198 कार्यकारियों ने भाग लिया।

#### 6. जीईएम और एमएसएमई के माध्यम से खरीद से संबंधित मामले:

सीपीएसईज़ के एमएसएमई विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा टीआरडीएस प्लेटफार्म का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी सीपीएसईज़ से अनुरोध किया गया था कि वे खरीद के लिए निविदा आमंत्रित करने वाले अपने मानक निविदा दस्तावेजों/नोटिस में टीआरडीएस प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान शर्तों के संदर्भ में एक उपयुक्त खंड/प्रावधान शामिल करें।

#### 7. मिशन भर्ती:

मिशन भर्ती के भाग के रूप में, डीपीई ने 20 अक्टूबर, 2022 को सीपीएसईज़ के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की ताकि उनके रिक्त पदों को भरने के लिए सीपीएसईज़ की कार्य योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की जा सके। डीओपीटी के संबंधित अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

\*\*\*\*\*